

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

तमसो मा ज्योतिर्गमय

आप सभी को एसएमसी की ओर से
आलोक पर्व दिवाली
की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं





प्रमुख खबरें

- इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के अनुसार वैश्विक तांबे के बाजार में इस साल लगभग 325,000 टन की कमी और 2023 में 155,000 टन के सरप्लस की उम्मीद है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाजार वर्ष 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने को मंजूरी दे दी। गेहूँ के एमएसपी में 110 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 100 रुपये, चना के लिए 105 रुपये, रेपसीड और सरसों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2022 में भारत का व्यापारिक घाटा बढ़कर 25.71 बिलियन डॉलर हो गया, जो सितंबर 2021 में 22.47 बिलियन डॉलर था।
- जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत में लिक्वीफाईड नेचुरल गैस (एलएनजी) का आयात वित्त वर्ष-18 के बाद से सबसे कम हुआ है क्योंकि रिकॉर्ड उच्च कीमतों और वैश्विक हाज़िर

बाजारों में कम आपूर्ति ने आयात को प्रभावित किया।

- भारत का ऑयलमिल निर्यात पहली छमाही में 39% बढ़ा, क्योंकि रेपसीडमिल का निर्यात दोगुना हो गया।
- रूस, भारत को कच्चे तेल के दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और सितंबर में आयात 18.5 फीसदी बढ़ा है।
- बाजार वर्ष 2022-23 में भारत का चीनी उत्पादन 36.5 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है: भारतीय चीनी मिल संगठन।
- केंद्र ने बताया कि वर्तमान में मूल्य स्थिरीकरण कोष और मूल्य समर्थन योजना के तहत विभिन्न दालों का 43.82 लाख टन बफर स्टॉक उपलब्ध है।
- भारत ने निर्यात-मुखी इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित फर्मों को आयातित गेहूँ से बने आटे का निर्यात करने की अनुमति दी है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 14.10.22 | 20.10.22 | बदलाव (%) |
|---------------|----------|----------|-----------|
| बाजरा | 1784.00 | 1890.00 | 5.94% |
| हल्दी | 6936.00 | 7142.00 | 2.97% |
| कॉटनऑयलसीडकेक | 2376.00 | 2424.00 | 2.02% |
| कैस्टरसीड | 7084.00 | 7184.00 | 1.41% |
| जौ | 3053.00 | 3095.50 | 1.39% |

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 14.10.22 | 20.10.22 | बदलाव (%) |
|-----------|----------|----------|-----------|
| कॉटन | 32550.00 | 33040.00 | 1.51% |
| कच्चा तेल | 7071.00 | 7091.00 | 0.28% |

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 14.10.22 | 20.10.22 | बदलाव (%) |
|------------|----------|----------|-----------|
| धान बासमती | 4255.00 | 3838.00 | -9.80% |
| गुड़ | 1320.00 | 1288.00 | -2.42% |
| ग्वारसीड | 4652.00 | 4550.00 | -2.19% |
| ग्वारगम | 9081.00 | 8922.00 | -1.75% |
| मक्का | 2309.00 | 2275.00 | -1.47% |

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

| कमोडिटी | 14.10.22 | 20.10.22 | बदलाव (%) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| नेचुरल गैस | 534.00 | 445.80 | -4.23% |
| एल्युमीनियम | 203.20 | 197.75 | -3.59% |
| मेंथा ऑयल | 985.10 | 967.30 | -2.16% |
| निकल | 1927.50 | 1895.70 | -2.13% |
| तांबा | 650.00 | 646.85 | -2.07% |

साप्ताहिक समीक्षा

चीन के जीडीपी आंकड़ों में देरी के बीच रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे तनाव और डॉलर इंडेक्स में उछाल के कारण कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट जारी रही। सीआरबी इंडेक्स 300 के स्तर से नीचे टूट गया और 291 के करीब बंद हो गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में अधिक बढ़ोतरी की संभावना से अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचने और डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने की कीमतों में लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट हुई है और चांदी की कीमतों में भी थोड़ी गिरावट हुई। हाल के सप्ताहों में अमेरिकी आर्थिक गतिविधियों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि मुद्रास्फोति केंद्रीय बैंक के 2% लक्ष्य से तीन गुना से अधिक चल रही है, जिससे अगले महीने दरों में लगातार चौथी बार 75 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि के अनुमान को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। एनर्जी काउंटर में कच्चे तेल की कीमतों में निचले स्तर से उछाल देखा गया जबकि नेचुरल गैस की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 15 मिलियन बैरल कच्चे तेल को बेचने और कीमतों में पर्याप्त गिरावट आने पर तेल की पुनर्खरीद करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन रूसी कच्चे तेल उत्पादों पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध और ओपेक+ द्वारा उत्पादन में 2 मिलियन बैरल प्रति दिन की कटौती से कीमतों को समर्थन मिला। साप्ताहिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार पिछले हफ्ते अप्रत्याशित रूप से 1.7 मिलियन बैरल कम हो गई जो 1.4 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी के अनुमान से कम है। एसपीआर का स्तर 3.6 मिलियन बैरल गिरकर केवल 405 मिलियन से अधिक हो गया, जो मई 1984 के बाद सबसे कम है। जिक को छोड़कर बेस मेटल की कीमतों में गिरावट हुई। बढ़ती मुद्रास्फोति के कारण औद्योगिक धातुओं में बिकवाली जारी रही और अधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और धातुओं की मांग के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है, जबकि मजबूत डॉलर का भी बाजार पर असर पड़ा। चीन ने हाल ही में संकेत दिया था कि उसकी शून्य-कोविड नीति को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है, जिसने इस साल मैनुफैक्चरिंग गतिविधि को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। इस कदम ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अधिक अनिश्चितता पैदा कर दी है। लेकिन चीन ने अपने उदार मौद्रिक नीति रुख को भी बनाए रखा, जबकि विकास को मदद करने के लिए अधिक प्रोत्साहन उपायों की रूपरेखा तैयार की।

कृषि कमोडिटीज में, कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में मामूली उछाल देखी गई जबकि कॉटन की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं। मेंथा तेल की कीमतें सपोर्ट स्तर से नीचे टूट गई और 955 के स्तर से कुछ ही अंक दूर है। अरंडी की कीमतें एक दायरे में रही। ग्वार काउंटर को कोई राहत नहीं मिली और कटाई गतिविधियों में प्रगति, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति में वृद्धि होने की संभावना है, के कारण कीमतों में एक महीने से अधिक समय तक लगातार गिरावट दर्ज की गई। मसालों के लिए यह एक बेहतर सप्ताह था, जिसमें धनिया और हल्दी की कीमतों में वृद्धि हुई जबकि जीरा ने अपने साप्ताहिक नुकसान की भरपाई की। कीमतों में हर गिरावट के बाद घरेलू बाजार में आपूर्ति की कमी को देखते हुए मसाला निर्माताओं ने जीरे में खरीददारी की है। यूक्रेन संकट के कारण आयात को लेकर अनिश्चितता से धनिया की कीमतों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हल्दी के रकबे में गिरावट के कारण आगामी सीजन के लिए कमजोर उत्पादन अनुमान से कीमतों को मदद मिली।



हाजिर कीमतें

| कमोडिटी | स्थान | 14.10.22 | 20.10.22 | (%) |
|------------------|------------|----------|----------|--------|
| जौ | जयपुर | 3049.45 | 3096.30 | 1.54% |
| चना | दिल्ली | 4901.90 | 4912.55 | 0.22% |
| धनिया | कोटा | 11426.05 | 11456.05 | 0.26% |
| क्रूड पॉम ऑयल | कांडला | 869.75 | 893.20 | 2.70% |
| गुड़ | मुजफ्फरपुर | 1311.00 | 1281.00 | -2.29% |
| ग्वारसीड | जोधपुर | 4750.00 | 4724.00 | -0.55% |
| ग्वारगम | जोधपुर | 9300.00 | 9268.00 | -0.34% |
| जीरा | ऊंझा | 23950.30 | 23941.70 | -0.04% |
| सरसों | जयपुर | 6624.25 | 6752.50 | 1.94% |
| रिफाइंड सोया तेल | मुंबई | 1300.00 | 1337.50 | 2.88% |
| सोयाबीन | इंदौर | 5187.10 | 5270.85 | 1.61% |
| हल्दी | निजामाबाद | 7221.15 | 7270.55 | 0.68% |
| गेहूं | दिल्ली | 2580.25 | 2636.35 | 2.17% |
| कॉटन | कडी | 32986.50 | 33225.55 | 0.72% |
| कॉटनऑयलसीडकेक | अकोला | 2698.75 | 2695.70 | -0.11% |

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

| कमोडिटी | एक्सचेंज | कॉन्ट्रैक्ट | 14.10.22 | 20.10.22 | बदलाव(%) |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| एल्युमीनियम | LME | नकद | 2306.00 | 2209.5 | -4.2% |
| तांबा | LME | नकद | 7538.50 | 7560.50 | 0.3% |
| लेड | LME | नकद | 2040.50 | 1977.50 | -3.1% |
| निकल | LME | नकद | 21777.00 | 22196.00 | 1.9% |
| जिंक | LME | नकद | 2941.00 | 2964.00 | 0.8% |
| सोना | COMEX | दिसम्बर | 1648.90 | 1636.80 | -0.7% |
| चांदी | COMEX | दिसम्बर | 18.07 | 18.69 | 3.4% |
| लाइट क्रूड | NYMEX | नवम्बर | 85.61 | 84.51 | -1.3% |
| नेचुरल गैस | NYMEX | नवम्बर | 6.45 | 5.36 | -16.9% |

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

| कमोडिटी | एक्सचेंज | कॉन्ट्रैक्ट | 14.10.22 | 20.10.22 | बदलाव (%) |
|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| सोयाबीन | CBOT | नवम्बर | 13.83 | 13.91 | 0.59 |
| सोया तेल | CBOT | दिसम्बर | 69.17 | 70.42 | 1.81 |
| कॉटन | ICE | दिसम्बर | 83.15 | 77.40 | -6.92 |
| सीपीओ | BMD | दिसम्बर | 3,833.00 | 4,096.00 | 6.86 |

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

| कमोडिटी | यूनिट | 13.10.22 क्वांटिटी | 20.10.22 क्वांटिटी | अंतर |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------|
| बाजरा | मी.टन | 1681 | 2133 | 452 |
| कैस्टर सीड | मी.टन | 0 | 0 | 0 |
| चना | मी.टन | 15599 | 19549 | 3950 |
| धनिया | मी.टन | 5734 | 6853 | 1119 |
| कॉटनऑयलसीडकेक | मी.टन | 0 | 0 | 0 |
| ग्वारगम | मी.टन | 10215 | 9439 | -776 |
| ग्वारसीड | मी.टन | 12556 | 11017 | -1539 |
| जीरा | मी.टन | 1816 | 2025 | 209 |
| मक्का | मी.टन | 0 | 0 | 0 |
| सोयाबीन | मी.टन | 0 | 0 | 0 |
| हल्दी | मी.टन | 1953 | 1565 | -388 |

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

| कमोडिटी | यूनिट | 14.10.22 क्वांटिटी | 19.10.22 क्वांटिटी | अंतर |
|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|
| एल्युमीनियम | मी.टन | 2672 | 2263 | -410 |
| तांबा | मी.टन | 3973627 | 4049793 | 76166 |
| सोना | किग्रा | 636 | 636 | 0 |
| सोना मिनी | किग्रा | 13760 | 13600 | -160 |
| सोना गिनी | किग्रा | 475300 | 474800 | -500 |
| लेड | किग्रा | 25 | 25 | 0 |
| चांदी (30 किग्रा बार) | किग्रा | 103297 | 128336 | 25040 |
| चांदी एम | किग्रा | 32563 | 32553 | -10 |
| जिंक | मी.टन | 852 | 919 | 68 |

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

| कमोडिटी | स्टॉक की स्थिति 14.10.22 | स्टॉक की स्थिति 20.10.22 | अंतर |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| एल्युमीनियम | 367200 | 562550 | 195350.00 |
| तांबा | 145660 | 139000 | -6660.00 |
| निकल | 52698 | 53760 | 1062.00 |
| लेड | 30400 | 29825 | -575.00 |
| जिंक | 51500 | 51200 | -300.00 |



ट्रेड शीट

| एक्सचेंज | कमोडिटी | कट्रेक्ट | बंद* भाव | ट्रेड बदलाव की तिथि | ट्रेड | भाव के ट्रेड में बदलाव | सपोर्ट | रेजिस्टेंस | क्लोजिंग स्टॉप लास |
|----------|---------------|----------|-------------|------------------------|---------|---------------------------|----------|------------|-----------------------|
| NCDEX | जीरा | नवम्बर | 24035.00 | 20.10.22 | मंदी | 24000.00 | - | 24750.00 | 24800.00 |
| NCDEX | हल्दी | नवम्बर | 7508.00 | 11.10.22 | तेजी | 7300.00 | 7230.00 | - | 7200.00 |
| NCDEX | ग्वारसीड | नवम्बर | 4667.00 | 30.05.22 | मंदी | 6000.00 | - | 4950.00 | 5000.00 |
| NCDEX | कैस्टरसीड | नवम्बर | 7166.00 | 14.07.22 | तेजी | 7270.00 | 7030.00 | - | 7000.00 |
| NCDEX | स्टील लांग | नवम्बर | 48550.00 | 25.08.2022 | मंदी | 50200.00 | - | 49450.00 | 49500.00 |
| NCDEX | कॉटनऑयलसीडकेक | दिसम्बर | 2424.00 | 03.10.22 | तेजी | 2300.00 | 2320.00 | - | 2300.00 |
| MCX | कॉटन | नवम्बर | 29670.00 | 19.10.22 | मंदी | 30500.00 | - | 30800.00 | 31000.00 |
| MCX | मेंथा ऑयल | नवम्बर | 967.30 | 23.05.22 | मंदी | 1080.00 | - | 1015.00 | 1020.00 |
| MCX | बुलडेक्स | अक्टूबर | 13825.00 | 11.10.22 | मंदी | 14100.00 | - | 14150.00 | 14200.00 |
| MCX | चांदी | दिसम्बर | 56653.00 | 11.10.22 | मंदी | 58500.00 | - | 57900.00 | 58000.00 |
| MCX | सोना | दिसम्बर | 50143.00 | 11.10.22 | मंदी | 51000.00 | - | 50950.00 | 51000.00 |
| MCX | मेटलडेक्स | नवम्बर | 16395.00 | 23.06.22 | साइडवेज | 1796.30 | 16000.00 | 16900.00 | - |
| MCX | तांबा | अक्टूबर | 646.85 | 29.08.22 | मंदी | 670.00 | - | 673.00 | 675.00 |
| MCX | लेड | अक्टूबर | 181.50 | 05.10.22 | साइडवेज | 181.00 | 173.00 | 183.00 | - |
| MCX | जिंक | अक्टूबर | 273.15 | 29.08.22 | मंदी | 312.00 | - | 289.00 | 290.00 |
| MCX | एल्युमिनियम | अक्टूबर | 197.75 | 29.08.22 | मंदी | 210.00 | - | 206.00 | 207.00 |
| MCX | कच्चा तेल | नवम्बर | 7091.00 | 17.10.22 | मंदी | 7000.00 | - | 7270.00 | 7300.00 |
| MCX | नेचुरल गैस | नवम्बर | 486.70 | 05.09.22 | मंदी | 710.00 | - | 517.00 | 520.00 |

*20/10/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पकड़ती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेड का मिलान योजना के ट्रेड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

नेचुरल गैस (नवम्बर) एमसीएक्स



नेचुरल गैस (नवम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 612.80

निचला स्तर: 472.10

एमसीएक्स में नेचुरल गैस (नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 20 अक्टूबर 2022 को 479.70 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 541.21 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 22.61 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

530.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 420.00 रु के टारगेट के लिए 490.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

स्टील लांग (नवम्बर) एनसीडीईएक्स



स्टील लांग (नवम्बर) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 50650

निचला स्तर: 48970

एनसीडीईएक्स में स्टील लांग(नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 20 अक्टूबर 2022 को 49200.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 49411.14 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 42.631 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

49800.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 48000.00 रु के टारगेट के लिए 49200.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

सोना (दिसम्बर) एमसीएक्स



सोना (दिसम्बर) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 52120

निचला स्तर: 49810

एमसीएक्स में सोना(दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 20 अक्टूबर 2022 को 50143.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 50494.71 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 39.401 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

50500.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 49000.00 रु के टारगेट के लिए 50000.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

मुख्य रूप से मौजूदा आपूर्ति चिंताओं के कारण हल्दी (नवंबर) वायदा की कीमतों में बढ़त बरकरार रहने की संभावना है। आगामी सीजन के लिए कम उत्पादन अनुमान के मद्देनजर स्टॉकस्ट्री की ओर से मांग में सुधार हुआ है। इसके अलावा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हाल ही में हुई भारी वर्षा के कारण उपज के नुकसान की आशंका से हल्दी की कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। वर्ष 2022 में हल्दी के तहत उत्पादन क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष 13% कम हुआ है और अब उपज के नुकसान के डर से बाजार के सेंटीमेंट को मदद मिलेगी। हल्दी की बुवाई गतिविधियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और आंध्र प्रदेश में हल्दी का कुल उत्पादन क्षेत्र पिछले साल के 19376 हेक्टेयर की तुलना में अक्टूबर 22 तक 16921 हेक्टेयर था। त्योहारों के साथ-साथ शालियों के मौसम में भी मांग सक्रिय रहने की संभावना है जिससे बाजार में हल्दी के सेंटीमेंट में तेजी बनी रहेगी। कम आवक के मौसम के कारण आवक कम रहने की संभावना है। उपरोक्त फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए, कीमतों को 7200 पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे 8000 के स्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

शॉर्ट कवरीज के कारण पिछले सप्ताह जीरा (नवंबर) वायदा की कीमतों में तेजी का रुझान रहा। आपूर्ति में कमी और त्योहारी खरीदारी बढ़ने से कीमतों में तेजी को समर्थन मिला। आने वाले दिनों में त्योहारी और शादी-विवाह सीजन की मांग बढ़ने के कारण जीरा की कीमतों में अधिक तेजी आने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति की कमी के कारण निर्यात मांग सक्रिय रही है, जिसमें मसाला निर्यात अगले तीन महीनों में कमजोर आपूर्ति के मद्देनजर अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। चीन से लगातार मांग के कारण भी कीमतों में तेजी को मदद मिल रही है क्योंकि अगस्त 22 में जीरा के कुल भारतीय निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 45% थी। अगस्त 22 में कुल 23.47 हजार टन निर्यात में से लगभग 10.62 हजार टन जीरा चीन द्वारा आयात किया गया था। जीरा (नवंबर) वायदा कीमतों में 23500 के सपोर्ट के साथ 24700 के रेंजिस्टेंस स्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

मुख्य रूप से आयात में व्यवधान के उभरते डर के बीच सक्रिय त्योहारी खरीदारी के कारण निकट अर्धवधि में धनिया (नवंबर) वायदा की कीमतें तेजी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच भू-राजनीतिक तनाव फिर से उभर आया है जिसके परिणामस्वरूप रूस से आयात में गिरावट हुई है और इसका असर घरेलू धनिया की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। भारत ने वर्ष 2022 में अब तक रूस से लगभग 15 हजार टन धनिया का आयात किया है। लेकिन धनिया की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण स्टॉकस्ट्री अपने स्टॉक को जारी कर सकते हैं क्योंकि धनिया की कीमतें पहले से ही पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक हैं। कीमतों को 11700 के रेंजिस्टेंस के साथ 11100 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

भारत के मध्य भाग में उपज के नुकसान की आशंका के कारण कॉटन (नवंबर) वायदा नवंबर की कीमतों के साइडवेज कारोबार करने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में हाल ही में हुई भारी बारिश ने कपास की खेती फसल की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। उपज के नुकसान के साथ-साथ कटाई गतिविधियों में देरी होने की संभावना है। साथ ही, भारतीय रुपये के अवमूल्यन और कपास की बढ़ती मौसमी मांग के कारण निर्यात संभावनाओं में सुधार से भी आने वाले सप्ताह में कीमतों में बढ़ोतरी को मदद मिलने की संभावना है। निर्यात की मौसमी प्रवृत्ति से पता चलता है कि भारत से कपास का कुल निर्यात का लगभग 30-40% अक्टूबर-दिसंबर में होता है। बांग्लादेश और अन्य एसईए देशों से निर्यात मांग में अपेक्षित वृद्धि से कीमतों में अधिक गिरावट पर रोक लग सकती है। कीमतों को 27500 का सपोर्ट मिलने की संभावना है और निकट भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे 32500 तक बढ़ सकती हैं।

घरेलू बाजार में खरीदारी बढ़ने से कॉटनसीडऑयल केक (दिसंबर) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। मजबूती खाद्य कीमतों की सापेक्षिकता है और उभरती मौसमी मांग से कीमतों में बढ़त को समर्थन मिलने की संभावना है। इसके अलावा, कपास की कीमतों में बढ़ोतरी से कॉटनसीडऑयल केक की कीमतों को मदद मिल सकती है क्योंकि प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में हाल ही में हुई बारिश के कारण फसल के नुकसान के उभरते डर से कपास की कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतों के 2300 के समर्थन स्तर पर रहने की संभावना है और आने वाले सप्ताह में यह 2600 की ओर बढ़ सकती है।

शॉर्ट कवरीज के कारण ग्वारसीड (नवंबर) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। निचले स्तर पर खरीदारी गतिविधियों में सुधार हो रहा है जिससे कारोबारियों को शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए मदद मिलेगी। लेकिन बंपर उत्पादन अनुमान के कारण बढ़त सीमित रहेगा। ग्वारसीड की कीमतों में 4500 का सपोर्ट रह सकता है और 5100 के स्तर तक रिकवरी की संभावना है।

भौतिक बाजार में सीमित कारोबार के कारण मेंथा ऑयल (नवंबर) वायदा की कीमतों के साइडवेज कारोबार होने की संभावना है। उच्च स्टॉक अनुमानों के कारण कीमतों में गिरावट हो रही है, जिसमें खरीदार कीमतों में हर गिरावट पर सक्रिय हैं। कम उत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट सीमित रह सकती है। कीमतों में 960 का सपोर्ट रहने की संभावना है और निकट भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे 1010 तक बढ़ सकती हैं।

अरंडी के तेल के निर्यात में सुस्ती के कारण अरंडी वायदा (नवंबर) की कीमतों पर दबाव में रहने की उम्मीद है। लेकिन पाइपलाइन में कम स्टॉक और वर्ष 2022-23 में कम उत्पादन के कारण गिरावट पर रोक लग सकती है। आगे चलकर, अरंडी की कीमतों को 6950 का सपोर्ट रहने की संभावना है और निकट भविष्य में इसे 7500 पर रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

सर्साफा

सोने की कीमतों में लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट हुई है क्योंकि अमेरिकी श्रम बाजार के बेहतर आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की आक्रामक टिप्पणियों के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण कीमतों पर दबाव पड़ा है। सोना अब तक 1.2% से अधिक फिसला है जबकि चांदी की कीमतों में अभी भी कुछ बढ़त बरकरार है। बेंचमार्क 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड जून 2008 के बाद से एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है जबकि डॉलर इंडेक्स 0.1% बढ़ा है। फंड अपने मॉड्रिक सख्ती के लगभग आधे रास्ते में ही है और दरों के बढ़ने की संभावना अधिक है, जिससे सोने में गिरावट जारी रहने की संभावना है। बाजार मुद्रास्फीति और नौकरियों के आंकड़ों पर नजर रखेगा और अगर वे बाजार के अनुमान से अधिक होते हैं तो सोने की कीमतों में तेजी आएगी। गुरुवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या पिछले सप्ताह कम हुई है जिससे पता चलता है कि श्रम बाजार बेहतर बना हुआ है। एक अन्य आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी मौजूदा घरेलू बिक्री सितंबर में लगातार आठवें महीने कम हो गई। स्विस् सोमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष बाजारों में स्विस् सोने का निर्यात सितंबर में चीन और भारत में वृद्धि हुई, जबकि तुर्की को शिपमेंट अप्रैल 2013 के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दुनिया में सोने के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेंडेड फंड एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग कम होकर 930.99 टन हो गई। इस सप्ताह कोमेक्स पर सोने की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं और कीमतों के 1560-1660 डॉलर के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और चांदी की कीमतें 17.20-19.40 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं, जहां इसे 48600 के पास सपोर्ट और 51400 के पास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी की कीमतें नरमी के साथ व्यापार करना जारी रख सकती हैं, जहां यह उच्च अस्थिरता के साथ 53500-58000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतें लगभग सपाट रही क्योंकि बढ़ती मुद्रास्फीति को लेकर चिंताओं के बीच कारोबारियों को चीन में ऊर्जा मांग में वृद्धि की उम्मीद है। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए, अमेरिकी फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था को धीमा करने की कोशिश कर रहा है और अपने अल्पकालिक दर लक्ष्य को बढ़ाता रहेगा। इस बीच, ब्लूमबर्ग समाचार के अनुसार बीजिंग विदेशियों के लिए क्वारिंटाइन अवधि को 10 दिनों से कम करके 7 दिन करने पर विचार कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक चीन इस साल सख्त कोविड-19 प्रतिबंधों पर अड़ा हुआ है, जो व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर रहा है, जिससे ईंधन की मांग कम हो जाती है। ओपेक+ नवंबर में प्रति दिन 2 मिलियन बैरल उत्पादन में कटौती करने के लिए सहमत हुआ, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक कटौती है, जबकि अटकलें बढ़ रही हैं कि तेल कार्टेल कीमतों को बढ़ाने के लिए बाजारों में अधिक हस्तक्षेप करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि की है कि साल के अंत तक अमेरिकी रणनीतिक रिजर्व से 15 मिलियन बैरल जारी करने की योजना है, और अधिक भी तेल जारी करने की चेतावनी दी क्योंकि वह 8 नवंबर को मध्यावधि चुनाव से पहले ऊर्जा की अधिक कीमतों को एक चुनावी मुद्दा नहीं बनने देना चाहते हैं। इस सप्ताह में कीमतों में दोनों तरफ की हलचल देखी जा सकती है, जहां इसे 6650 के पास सपोर्ट मिल सकता है और संभवतः 7250 के पास रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट देखी गई क्योंकि मौसम के अनुमान से अधिक से गर्म रहने की संभावना है। हम पहले ही एमसीएक्स पर गैस की कीमतों में 80 अंकों की गिरावट देख चुके हैं और कीमतें 50-दिवसीय मूविंग औसत के मनोवैज्ञानिक स्तर से काफी नीचे हैं। आने वाले सप्ताह में कीमतों में नरमी के रुझान के साथ कारोबार जारी रह सकता है और कीमतें 420-500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है क्योंकि अमेरिका और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण आगामी दिनों में दरों में बढ़ोतरी और आने वाली वैश्विक मंदी की आशंका प्रबल हुई है, जिससे धातुओं की मांग को खतरा हो सकता है। फेड बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया के अध्यक्ष पैट्रिक हार्कर के बयानों के बाद फेड की लंबे समय तक दरों में बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था के मंदी की ओर जाने की आशंकाओं को बल मिला है। चीन ने अपने सख्त कोविड-19 नियमों को जारी रखने का दृढ़ संकल्प किया और आर्थिक विकास के लिए खतरा पैदा कर दिया और धातुओं के लिए मांग के आउटलुक को धूमिल कर दिया। तांबे की कीमतें 620-670 के दायरे में कारोबार कर सकती है। इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के अनुसार वैश्विक तांबे के बाजार में इस साल लगभग 325,000 टन की कमी और 2023 में 155,000 टन के सरप्लस की उम्मीद है। चीन में रिफाईंड तांबे के खरीदार 2023 में चीन को तांबे की बिक्री के लिए बढ़ते प्रीमियम के कारण रूसी धातु की खरीद में वृद्धि कर सकते हैं - जो एलएमई में तीन महीने के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर 2022 में 105 डॉलर और 2021 में 88 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 150 डॉलर और 210 डॉलर प्रति टन के बीच रह सकता है। फ्रीपोर्ट-मैकमोरन के अधिकारियों ने अक्षय ऊर्जा उत्पादों में इसके उपयोग के कारण तांबे की मांग में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है और कहा है कि इसके किसी भी ग्राहक ने ऑर्डर वापस नहीं लिया है। जिंक की कीमतें 260-285 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लेड की कीमतें 174-185 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्युमीनियम की कीमतें 190-207 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक जारी रह सकती है क्योंकि समग्र आपूर्ति अभी भी बेहतर है, और वैश्विक प्राथमिक एल्युमीनियम की आपूर्ति सितंबर में सालाना आधार पर 4.3 फीसदी बढ़कर 5.7 मिलियन टन हो गई है। कमोडिटी ट्रेडर ग्लेनकोर ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगयांग में लंदन मेटल एक्सचेंज के पंजीकृत गोदामों में रूसी मूल के एल्युमीनियम की अधिक मात्रा में डिलीवरी की है। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन की कीमतें 47800-49400 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

आर्थिक मंदी पैदा कर रहा ऊर्जा संकट

दुनिया भू-राजनीतिक संकट से लेकर ऊर्जा की कमी, आर्थिक अशांति और परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे तक कई समस्याओं का सामना कर रही है। इसलिए विश्व अर्थव्यवस्था बढ़ती अनिश्चितता और बढ़ती चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक सख्ती, कई क्षेत्रों में अधिक सावरेन ऋण स्तर शामिल हैं।

ऊर्जा की कीमतें- जो कच्चे तेल, नेचुरल गैस और कोयले की कीमत से निर्धारित होती है- पिछले साल कोविड लॉकडाउन हटाए जाने और इसके बाद इस साल यूक्रेन पर रूस का आक्रमण के परिणामस्वरूप बढ़ने लगीं। जब तक रूस-यूक्रेन संघर्ष समाप्त नहीं होता है, तब तक ऊर्जा संकट को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है क्योंकि मास्को ने पश्चिम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में तेल और नेचुरल गैस की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है, जबकि यूरोपीय संघ के देश 5 दिसंबर, और अगले साल 5 फरवरी से समुद्री रास्ते से आयातित रूसी कच्चे तेल रूसी रिफाईंड तेल उत्पादों को खरीदना बंद कर देंगे। कुल मिलाकर, रूस ने पिछले एक साल में यूरोप को गैस आपूर्ति में 88% की कटौती की है। यूक्रेन पर अपने आक्रमण और भारी आर्थिक प्रतिबंधों के लिए वैश्विक निंदा का सामना करते हुए, रूस ने पहले से ही पानी के नीचे गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है।

आपूर्ति की चिंता को बढ़ाते हुए, 4 अक्टूबर को, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उसके सहयोगियों, जिन्हें ओपेक + के रूप में जाना जाता है, ने नवंबर में शुरू होने वाले तेल उत्पादन में 2 मिलियन बैरल प्रति दिन की कमी यह कहते हुए किया कि निर्णय 'वैश्विक आर्थिक और तेल बाजार के आउटलुक' से जुड़ी अनिश्चितता पर आधारित था

रूस प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल और लगभग 3 मिलियन बैरल रिफाईंड तेल उत्पादों का निर्यात करता है। यह इसके कुल निर्यात राजस्व का 40% होता है। यूरोपीय संघ का कहना है कि उसके नवीनतम प्रतिबंध रूस से खरीदे जाने वाले तेल की मात्रा में 90% की कटौती कर सकते हैं। हालांकि, इसे पूरी तरह से लागू होने में महीनों लगेगे और तब भी रूस दुनिया में कहीं और तेल बेच सकेगा। भारत और चीन दोनों हाल के महीनों में अधिक रूसी कच्चे तेल खरीद रहे हैं।

वैश्विक विकास पर प्रभाव


2022 में, मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना बन गई- जो 100% विकसित देशों और 87% उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही है। आपूर्ति की चिंता के कारण ऊर्जा की कीमतों में झटकों, बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति और सख्त मौद्रिक स्थितियों ने वैश्विक विकास को धीमा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि निरंतर मुद्रास्फीति के दबाव और ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर मंदी की ओर धकेलना शुरू कर दिया है, जो पहले से ही धीमेपन के कगार पर है।

बढ़ती खाद्य असुरक्षा और सामाजिक अशांति

ऊर्जा की बढ़ती लागत परिवार के बजट को प्रभावित कर रही है, जिससे बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तनों का जवाब देने के लिए बहुत कम छूट मिल रही है। उच्च ईंधन और खाद्य कीमतों को अक्सर बड़े पैमाने पर विरोध, राजनीतिक हिंसा और दंगों से जोड़ा जाता है। जबकि श्रीलंका और पेरू में पहले से ही बढ़े हुए दंगे देखे जा चुके हैं, तुर्की, मिस्र और कुछ यूरोपीय देशों में भी सामाजिक अशांति का खतरा है क्योंकि जीवन यापन की लागत बढ़ गई है और खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है।

बिजली संकट से ठप हो रहे व्यवसाय

ऊर्जा की कीमतें दशक भर के उच्चतम स्तर पर होने के साथ यूरोप की सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाली कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई है। इस्पात, एल्युमीनियम, जिंक और लेड, उर्वरक और बिजली जैसे विविध उद्योगों में दर्जनों संयंत्रों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि आसमान छूती गैस और बिजली की कीमतों के कारण उनके व्यवसायों को मुनाफा नहीं हो रहा है।



स्रोत: रॉयटर्स



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आर्काइव/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एंव उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ट्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।